

प्रेषक,

कैलाश कुमार,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-7, एटा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,  
एटा।

विषय : बेव पोर्टल पर प्रार्थना पत्र संख्या-186 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गयी आपत्ति पर C.L. No. 25/Adm(A) Dated 13-07-1998 के अनुपालन में मेरे द्वारा खरीदी गयी Venue 1.0.turbo GDI DCT SX+ कार की बिन्दुवार सूचना के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा एक Venue 1.0.turbo GDI DCT SX+ कार क्रय की गयी है, जिसके सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्नवत है-


- 1- प्रार्थी के द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 29.05.2009 को प्रवेश किया गया।
- 2- प्रार्थी इस समय कुल सकल वेतन मुव0-159573/-रूपये प्राप्त कर रहा है तथा कटौतियों के बाद मुव0-125239/-रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहा है।
- 3- प्रार्थी द्वारा Venue 1.0.turbo GDI DCT SX+ कार नं0-डी.एल. 8सी.ए. वाई 9389, दिनांक 18.10.2019 को मुव0-12,84,626/-रूपये में क्रय की गयी है।
- 4- माननीय उच्च न्यायालय से मेरे द्वारा कोई लोन नहीं लिया गया है।
- 5- प्रार्थी द्वारा उक्त Venue 1.0.turbo GDI DCT SX+ कार खरीदने हेतु बैंक आफ बड़ौदा ब्रान्च शालीमार बाग दिल्ली से मुव0-8,00,000/-रूपये (आठ लाख रूपये) लोन लिया गया है। मेरी पत्नी स्कूल आफ ओपन लर्निंग, कैम्पस आफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में सहायक के पद पर कार्यरत है, जिसकी सूचना मेरे द्वारा नियमानुसार अपने सम्पत्ति विवरण में माननीय उच्च न्यायालय को समयानुसार दी जा रही है। मेरी पत्नी के बचत खाता संख्या-10851443371, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय शाखा से मुव0-4,00,000/-रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिसका नम्बर-320480 दिया गया है तथा मुव0-84,626/-रूपये नगद के रूप में अदायगी की गयी है। बैंक लोन मेरे बचत खाता संख्या-30795985089 भारतीय स्टेट बैंक, मैन ब्रान्च, एटा, उ0प्र0 से मुव0-16,451.81/-रूपये प्रतिमाह की दर से 60 किस्तों में दिया जाना नियत किया गया है।

म

- 6- प्रार्थी के द्वारा कोई सेकेण्ड हैंड कार नहीं खरीदी गयी है, बल्कि नई कार खरीदी गयी है, जिसका विवरण उपरोक्त पैरा नम्बर-3 व 5 में दिया गया है।
- 7- उपरोक्त खरीदी गयी कार अचल सम्पत्ति नहीं, बल्कि एक चल सम्पत्ति है, जिसका विवरण उपरोक्त पैरा नम्बर-3 व 5 में दिया गया है।
- 8- यह कार अग्रवाल ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड शालीमारबाग नई दिल्ली 110088 से कय की गयी है।
- 9- कार का विक्रेता रेग्यूलर और रेप्यूटेड है।
- 10- प्रार्थी का डीलर से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, और न ही डीलर का कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन है, न ही डीलर का कोई मुकदमा मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।
- 11- प्रार्थी के द्वारा स्रोत का विवरण संलग्न किया जा रहा है तथा उक्त लोन की धनराशि का भुगतान मेरे द्वारा अपने वेतन से किया जा रहा है।

सूचना माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।  
ससम्मान।

दिनांक 16.10.2020

प्रार्थी,  
  
( कौशल कुमार )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-7/जज रेप व पोक्सो एक्ट,  
एटा।

**संलग्नक :**

- 1- एक किता नगद भुगतान रसीद मुव0-34,626/-रूपये एक पेज।
- 2- एक किता नगद भुगतान रसीद मुव0-50,000/-रूपये एक पेज।
- 3- एक किता डिमाण्ड ड्राफ्ट, जिसका नम्बर-320480 द्वारा भुगतान रसीद मुव0-4,000.00/-रूपये एक पेज।
- 4- एक किता ऋण लेने के लिए मंजूरी पत्र तीन पेज।
- 5- एक किता यूनिटी हुण्डई रिटेल इन्वोइस एक पेज।
- 6- एक किता टैक्स इन्वोइस रिटेल इन्वोइस एक पेज।
- 7- एक किता रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स एक पेज।
- 8- एक किता परिवहन विभाग द्वारा जारी अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र एक पेज।